



दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.

Regd. & Head Office : New India Assurance Bldg., 87, M.G.Road, Fort, Mumbai - 400 001.

CIN No. L66000MH1919GOI000526

Phone : 022-22708100
22708400

Website : www.newindia.co.in

Ref. No.: NIACL/CMD_Board Sectt/2020-21

July 2, 2020

To,

The Manager

Listing Department

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Tower

Dalal Street

Mumbai 400 001

The Manager

Listing Department

The National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5t floor, Plot C/1

G Block, Bandra-Kurla Complex

Mumbai 400 051

Scrip Code: (BSE 540769/ NSE-NIACL)

Dear Sir/Madam,

Sub: Extract of the Audited Financial Results(Standalone/CFS) of the Company for the Quarter and Year ended 31st March, 2020 published in newspapers

This has reference to our letter dated June 30, 2020 whereby we had submitted the outcome of the Board Meeting held on 30.06.2020.

The cutting of the newspapers, where we had published the “**Extract of the Audited Financial Results**” (Standalone/CFS) of the Company for Quarter and Year ended 31st March, 2020 is enclosed. The said extract is also available on the Company’s website at www.newindia.co.in.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully

For The New India Assurance Company Limited

Jayashree Nair

Company Secretary & Chief Compliance Officer



India to ban Chinese companies from highway projects: Gadkari

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 1 July

India will not allow Chinese companies to participate in highway projects, including those through joint ventures (JVs), Union Minister Nitin Gadkari said on Wednesday amid border stand-off with China. Gadkari also said the government will ensure Chinese investors are not entertained in various sectors like micro, small and medium enterprises (MSMEs).

The senior minister's assertions assume significance against the backdrop of border stand-off between India and China in Ladakh that also saw the death of 20 Indian Army personnel last month.

"We will not give permission to JVs that have Chinese partners for road construction. We have taken a firm stand that if they (Chinese companies) come via JV in our country, we will not allow it," Gadkari told PTI. The road transport, highways and MSME minister said a policy will be out soon banning Chinese firms and relaxing norms for Indian companies to expand their eligibility criteria for participation in highway projects.

Currently, only a few projects which were undertaken earlier involve some Chinese partners. When asked about this, he said the new decision will be implemented in current and future tenders. With respect to existing tenders and future bids, Gadkari said rebidding would be done if there are any Chinese JVs. "We have taken a decision to relax norms for our firms to ensure they qualify for bidding in large projects. I have directed the highways secretary (Giridhar Aramane) and National Highways Authority of India chairman (S S Sandhu) to hold a meeting for relaxing technical and financial norms," he said.



Rajnath likely to visit Ladakh on Friday

Defence Minister Rajnath Singh is likely to visit Ladakh on Friday to review India's military preparedness in view of the bitter border stand-off with the Chinese army in the region, sources said. During the visit, Singh is expected to hold high-level meetings with senior military leadership, they said. The Indian and Chinese armies are locked in the stand-off in multiple locations in eastern Ladakh for the past seven weeks. **PTI**



SINO-INDIAN BORDER TALKS Military commanders' meet gives no sign on agreement to disengage

AJAI SHUKLA
New Delhi, 1 July

A third meeting between Indian and Chinese corps commanders on Tuesday had not yielded any tangible measures to de-escalate the crisis caused by the capture of Indian-claimed territory by Chinese troops in Ladakh.

The meeting was held at Chushul, on the Indian side of the Line of Actual Control (LAC) — the de facto Sino-Indian border — between India's Leh corps commander, Lieutenant General Harinder Singh, and China's Commander of the South Xinjiang Military Region, Major General Liu Lin.

Neither the defence ministry nor the Ministry of External Affairs (MEA) made any comment on the outcome.

However, sources in the Army's public affairs directorate stated: "Both sides have emphasised the need for an expeditious, phased and stepwise de-escalation as a priority." It is learnt that the Chinese side made no commitment towards disengaging or withdrawing from seven areas on the Indian side of the LAC that China's People's Liberation



Army (PLA) have entrenched themselves in, since May 5. In the first corps commanders' meeting on June 6, the Indian military officers believed the Chinese had agreed to disengage and pull back from the Galwan River valley.

But when Indian soldiers went close to the LAC to ascertain that the PLA had withdrawn, they were ambushed by Chinese soldiers, resulting in the deaths of 20 Indian soldiers and an unspecified number of Chinese.

Currently, the PLA remains ensconced at Patrolling Point (PP) 14 in the Galwan River valley, as well as at six other places on the Indian side of the LAC: The Bottleneck area in the Depsang area, Jeevan Nullah, PPI5 in Galwan, Gogra Heights at PPI7, Chushul, and in the

north bank of Pangong Lake up to Finger 4.

Reflecting the tension in the military-to-military talks on Tuesday, Army sources said the meeting was "held in a business-like manner, keeping in view the Covid-19 protocols."

"The process of disengagement along the LAC is complex and in such a context, speculative and unsubstantiated (media) reports need to be avoided," stated sources.

Meanwhile, Indian troops have been deployed near the PLA intruders, to prevent further ingress by the Chinese. Also, India's military has begun mobilising and moving troops to the border to deal with any situation that arises.

While the two sides continue discussions in diplomatic channels, as well as military, the Chinese side is insisting that the areas the PLA has occupied belong to China, not India.

Read full article on www.business-standard.com

PIL for display of country of origin on products sold on e-com sites: HC seeks Centre's stand

The Delhi High Court on Wednesday sought response of the Centre on a plea seeking directions to it to ensure that the name of the manufacturing country is displayed on products being sold on e-commerce sites.

A Bench of Chief Justice DN Patel and Justice Prateek Jalan issued notice to the Centre and e-commerce platforms like Amazon, Flipkart, and Snapdeal, seeking their stand on the plea by July 22.

The court also issued notice to other e-commerce platforms like Reliance Retail's AJIOlife, Nykaa Retail, and Decathlon Sports.

The central government's standing counsel Ajay Diggapal accepted notice on behalf of the

Ministry of Consumer Affairs.

The plea by a lawyer has sought implementation of the Legal Metrology Act, 2009, and the rules framed under it mandate that country of origin must be displayed on products being sold on e-commerce websites.

The petition has claimed that the mandate was not being enforced with respect to e-commerce entities.

It has contended that enforcement of the mandate was important in the current scenario when citizens intend to comply with the central government's appeal to promote and purchase Indian goods

and not from some neighbouring countries. Therefore, it was essential that the country of origin is displayed on products being sold on e-commerce platforms, the petitioner has said.

During the hearing, contended that the Government e-Marketplace, a special purpose vehicle under the Ministry of Commerce and Industry, had issued a notification making it mandatory for sellers to enter the country of origin while registering new products on the platform, for promoting Make In India and Atmanirbhar Bharat. **PTI**



W.S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED				
CIN: L28142TN1951PLC004568				
Registered Office : 108, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai - 600 116				
STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2020 (under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015)				
₹ in Lakhs				
S. No.	Particulars	HALF YEAR ENDED		YEAR ENDED
		31st March 2020 Audited	31st March 2019 Audited	31st March 2019 Audited
1.	Total income from operations (net)	20.79	3.46	966.73
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional/Extraordinary items)	(9.95)**	776.54	(578.00)
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional/Extraordinary items)	(5233.06)**@#	(4357.60)	(22466.62)
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Exceptional/Extraordinary items)	(5233.06)**@#	(4312.38)	(22421.40)
5.	Total Comprehensive income for the period (Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive income (after Tax))	(5247.13)@**#	(4312.41)	(22421.43)
6.	Paid up Equity Share Capital	2626.06	2626.06	2626.06
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			(13560.50)
8.	Earnings Per Share (for continuing and discontinuing operations) (of ₹ 10/- each)			
	a) Basic	(20.14)	(16.66)	(85.86)
	b) Diluted	(20.14)	(16.66)	(85.86)

1. The above is an extract of the detailed format of Half Year and Year Ended 31st March 2020 audited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results for the Half Year and Year Ended 31st March 2020 are available on the Stock Exchange Websites. (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.wsindustries.in/KYC)

2. The above results were reviewed by the Audit Committee, approved and taken on record by the Board at its meeting held on 30th June 2020, in terms of Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

3. The Group adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) from the financial year beginning on 1st April 2017 and this financial results for the half year and year ended 31st March 2020 is prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS prescribed under Section 133 of the companies Act, 2013 read with relevant Rules issued thereunder and in terms of SEBI Circular No.CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July 2016.

4. The status of production and related activities of the Holding Company remains unchanged as reported for the previous half year.

5. **The Interest treatment for the facilities availed from the banks/financial institutions by the Holding Company remains unchanged as reported for the previous half year.

6. The Holding Company has identified its Chennai Insulator Division (12 months) and Vizag Insulator Division (wef 01.10.2019 for 6 months) under Ind AS 105 and accordingly adjustments are shown separately in the statement of profit and loss. Hence previous period figures are not comparable.

7. The Holding Company has partially complied with the terms of the settlement agreements executed with the secured lenders as highlighted in the annual report for the financial year ending 31st March 2019 but the company has been unable to complete the full and final settlement due in February 2019. Pursuant to the same, the Holding Company has received latest claim letter in Jan 2020 claiming repayment of contractual dues as follows:

(i) ₹ 427.41 cr., from Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (in its capacity as Trustee of EARC SAF 1 Trust, EARC Trust SC 168, EARC Trust SC 209) as on Dec. 31, 2019,

(ii) ₹ 84.09 cr., from IDBI Trusteeship Service Limited (as a debenture trustee on behalf of debenture holders) as on Dec. 31, 2019 and

(iii) ₹ 133.67 cr., from Allium Finance Private Limited as on Dec 31, 2019.

The claim amounts include interest up to the said period and other charges as provided for under the respective financing documents entered into by the Holding Company. The Holding Company is in discussions with the secured lenders for its resolution.

8. @ As required under Ind AS 36 Impairment amounting to ₹ 4570 Lakhs has been provided in the books of Vizag Insulator Division of the Holding Company (considered as discontinued operations w.e.f. 01.10.2019) with reference to Land on unexpired Lease period (as on 31st Mar. 2020), Buildings on Card Rate and other fixed assets on the respective WDV basis. The provision made at the end of the 3rd quarter of the current year stands reversed.

9. The Holding Company has subscribed to 50000 Equity Shares of ₹ 10/- each fully paid up in its subsidiary, viz., WS Insulators Private Limited, incorporated on 14th November 2019.

10. # Pursuant to approval of Shareholders of the Holding Company through Postal Ballot Notice dated 26th April 2019 and the result dated 8th June 2019, sale of 50100 equity shares of Rs.10/- each for ₹ 5.01 Lakhs held by the Holding Company in its erstwhile subsidiary W.S. T&D Limited was completed. The earlier provision of Fair Value Loss of ₹ 5.01 Lakhs stands reversed.

11. In terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, the Holding Company has disclosed Consolidated Quarterly Results from the quarter ended June 30, 2019.

12. The Consolidated financial statements relate to W.S. Industries (India) Limited (the Parent Company), and its Subsidiary Companies. The Parent Company with its subsidiaries constitute the Group.

13. The Subsidiary Companies considered in the consolidated financial statements are Vidagara Tech Park Private Limited, WS Insulators Private Limited (incorporated on 14th November 2019) and W.S. T & D Limited (till 09th June 2019), whose country of incorporation are in India and the percentage of voting power by W.S. Industries (India) limited as on 31st March 2020 is 100%, 100%, nil respectively.

14. The Group is not required to provide Segment Reporting under the criteria specified in IND AS 108.

15. Inventories comprising of Raw Materials, Work-in-progress, Finished Goods and Stores and Spares to the extent of ₹ 41.19 Lakhs in Chennai division, ₹ 73.17 Lakhs in Visakhapatnam division and Capital Work in Progress to the extent of ₹ 70.37 Lakhs in Visakhapatnam division in the Holding Company have been fully written off at the end of the 3rd quarter of the current year because of "Discontinued Operations".

16. The lockdown and restriction of activities due to Covid-19 does not have any significant impact in the Holding Company's overall performance during the current period, but has impacted the functioning with shutdown of office. Due to this, the efforts of the Holding Company on the resolution plan is getting delayed. The Holding Company will be able to get a better clarity only after the lockdown is lifted and reasonable normalcy is restored. Regarding the subsidiaries, the effects of COVID-19 pandemic does not have any significant impact on their respective operations and compliances, during the current period.

17. Figures have been regrouped/reclassified wherever necessary, to conform to this year's classifications.

18. The figures for the half year ended 31st March 2020 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the first half year of the financial year.

Chennai
30th June, 2020

for W.S. Industries (India) Limited
Director

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Co. Ltd



Gross Written
Premium
₹ 31,244
Crores

Solvency
Ratio
2.11
Times

Profit
After Tax
₹ 1,418
Crores

Extract of the Audited Financial Results for the Year ended 31st March 2020

(₹ IN CRORES)

Sl. No.	PARTICULARS	Standalone		Consolidated	
		Year Ended 31st Mar 2020 (Audited)	Year Ended 31st Mar 2019 (Audited)	Year Ended 31st Mar 2020 (Audited)	Year Ended 31st Mar 2019 (Audited)
1	GROSS WRITTEN PREMIUM	31,244	28,017	31,475	28,225
2	PROFIT BEFORE TAX	1,639	645	1,659	677
3	PROFIT AFTER TAX	1,418	580	1,436	605
4	SOLVENCY RATIO (TIMES)	2.11	2.13	2.11	2.13
5	NET WORTH	15,726	15,762	16,330	16,338
6	EARNING PER SHARE	8.60	3.52	8.75	3.67

Note: The above is an extract of the detailed format of Yearly Financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the Yearly Financial results are available on the websites of Stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company (www.newindia.co.in)

For and on behalf of the Board of Directors

sd/-
Atul Sahai

Chairman-Cum-Managing Director
DIN07542308

Place: Mumbai
Date: June 30, 2020

24x7 - Toll free number
1800-209-1415

www.newindia.co.in



NEW INDIA ASSURANCE

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

Head Office: New India Assurance Building, 87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400 001 INDIA

IRDAI REGN No. 190

CIN : L66000MH1919G01000526

ऐप बैन पर कंपनियों जाएंगी अदालत!

चीनी कंपनियों का मानना है कि भारत सरकार का ऐप प्रतिबंध का फैसला मनमाना

श्रीमी चौधरी

सरकार ने चीन की जिन कंपनियों के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है उनमें से कुछ इस बात पर विचार कर रही हैं कि वे भारत की अदालत में रिट याचिका दाखिल करें या नहीं। इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि इन कंपनियों का मानना है कि भारत सरकार ने ऐप पर प्रतिबंध लगाने का जो फैसला किया है वह मनमाना, भेदभावपूर्ण होने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ लॉ फर्मों का मानना है कि डेटा स्थानीयकरण और मौजूदा तंत्र में कुछ संशोधन से जुड़ी चिंताओं के बारे में आशवासन दिए जाने के बावजूद अगर भारत सरकार इस कदम पर पुनर्विचार नहीं करती है, तब वे उच्च न्यायालय में जा सकती हैं।

इन कंपनियों ने भारत सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के अलावा यह कदम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि प्रतिबंध से पहले कोई सुनवाई नहीं की गई थी। इस मामले से जुड़ी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया, 'यह कदम बिना किसी अपराध के ज्यादा दंड देने के समान है। इस याचिका में बुनियादी ढांचे और कई अन्य क्षेत्रों में अरबों के प्रत्यक्ष



कंपनियों ने भारत सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है

विदेशी निवेश (एफडीआई) के भविष्य के बारे में पूछा जा सकता है।'

उनका कहना है कि उन पर किसी भी कानून के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है जिसकी वजह से इस तरह के गंभीर प्रतिबंध लगाने की नौबत आए। आमतौर पर प्रतिबंध लगाने से पहले कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। उनका कहना है कि प्रतिबंध के आदेश भी बिना किसी आधार या तर्क के हैं। हालांकि इन कंपनियों की लीगल टीम सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संपर्क करने की कोशिश करेगी। इसमें प्रतिबंध के सामान्य

आर्थिक प्रभाव, भारत के आर्थिक विकास में अहम योगदान करने वालों, नए प्रयोग और उपभोक्ता मांग की पूर्ति पर भी चर्चा हो सकती है। इस कदम से प्रभावित होने वाली एक कंपनी के अधिकारी ने बताया, 'इन ऐप का काम रोकने से भारत के आर्थिक और वाणिज्य विस्तार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और भारत की बढ़ती उद्यमशीलता की भावना और नए प्रयोग की दिशा में भी बड़ा झटका लगेगा।'

ये कंपनियां भारत के लोगों को रोजगार और आजीविका देने के साथ-साथ भारत सरकार के लिए

राजस्व मुहैया कराने का भी हवाला दे रही हैं। वे सरकार से संस्थापक की शर्त पर भी इन ऐप को चलाने से जुड़े वास्तविक मकसद की जांच करने के लिए कह सकती हैं। वे राजनीतिक भागीदारी आदि जैसे विषयों पर भी अपनी कोई दिलचस्पी न होने की बात रख सकती हैं। उनका कहना है, 'हम अधिकारियों के साथ सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर बदलाव करने के लिए तैयार हैं।'

दिलचस्प बात यह है कि सरकार के इस कदम से उनके राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इनसे मिलने वाला

कानून का सहारा

इन कंपनियों की लीगल टीम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संपर्क करने की कोशिश करेगी

इसमें प्रतिबंध के सामान्य आर्थिक प्रभाव, भारत के आर्थिक विकास में अहम योगदान करने वालों और उपभोक्ता मांग की पूर्ति पर चर्चा हो सकती है

ये कंपनियां भारत के लोगों को रोजगार और आजीविका देने के साथ-साथ भारत सरकार के लिए राजस्व मुहैया कराने का भी हवाला दे रही हैं

आयकर काफी कम होता है क्योंकि वे लगातार मुकसान दिखाती रहती हैं, हालांकि वे विज्ञापन खर्च पर अप्रत्यक्ष कर देती हैं।

एक लॉ फर्म ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'सरकार का यह कदम हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं की संभावित राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन भारत में इनमें से कुछ ऐप द्वारा बड़ी तादाद में रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ डेटा स्थानीयकरण सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं, ऐसे में सरकार का यह कदम उलटा साबित हो सकता है।'

ब्रिटेन और यूएई समेत 11 देशों की वीजा सेवाएं बहाल

अनीश फडणीस

ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), तुर्की, आयरलैंड और इटली समेत 11 देशों के वीजा आवेदन केंद्र भारत में फिर से अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। सेवा प्रदाता वीएफएस ने बुधवार को इन देशों के भारत स्थित वीजा आवेदन केंद्रों में फिर से काम शुरू होने की जानकारी दी। इस दौरान शारीरिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा। भारत में कोविड महामारी की वजह से लापु लाकड़ान की बर्दशाही में छूट दिए जाने और सीमाएं खोलने की संभावनाएं देखते हुए इन केंद्रों को फिर से खोला जा रहा है।

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर 15 जुलाई तक रोक लगाई हुई है। इसके अलावा विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने के लिए भी सीमित उड़ानें ही संचालित की जा रही हैं। ब्रिटेन और आयरलैंड के वीजा आवेदन केंद्र भारत के 11 शहरों में 6 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। जहां ब्रिटेन सभी श्रेणियों में वीजा आवेदन स्वीकार करेगा, वहीं आयरलैंड के लिए वीजा आवेदन केवल छात्र एवं लंबे प्रवास वीजा तक ही सीमित रहेंगे।

बेलारूस, डेनमार्क, डोमिनिक रिपब्लिक, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया और तुर्की के लिए वीजा सेवाएं फिलहाल दिल्ली केंद्र में ही उपलब्ध होंगी जबकि यूएई के लिए वीजा सेवा एमिरेट्स की भारत के लिए उड़ान बहाल होने के बाद ही ऑनलाइन उपलब्ध होगी। दुबई 7 जुलाई से अपने दरवाजे विदेशी पर्यटकों के लिए खोल रहा है जबकि तुर्की भी



ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, आयरलैंड और इटली समेत 11 देशों के वीजा आवेदन केंद्र भारत में फिर से होंगे शुरू

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर 15 जुलाई तक रोक लगाई हुई है

विदेशी मेहमानों का स्वागत करने को तैयार है।

वीएफएस ने कहा कि वीजा के लिए आवेदन करने वालों को इन केंद्रों पर जाने के पहले अप्वाइंटमेंट लेना होगा। उसने कहा, 'सभी लोगों को आवेदन केंद्र के प्रवेश द्वार पर ही तापमान जांचा जाएगा और तेज बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों वाले लोगों को भीतर नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा। हालांकि सेहत में सुधार होने के बाद वे नए सिरे से अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं।'

कोविड-19 से अस्पतालों में लगा कचरे का अंबार

पृष्ठ 1 का शेष

हालांकि विस्तृत दिशा-निर्देश तो आ चुके हैं, लेकिन जागरूकता की कमी बड़ी चुनौती है जिस कारण कचरा उत्पन्न होने वाले स्थान पर कचरा छांटने में दिक्कत हो रही है और कचरा एकत्रित करने वाले जोखिम में पड़ जाते हैं।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि हमने हाल ही में एक निरीक्षण पूरा किया है। जब यह कचरा किसी पंजीकृत स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से आता है, तो इस प्रणाली को भली-भांति निर्धारित और ठीक से प्रबंधित किया जाता है। हालांकि चूँकि कई लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं, इसलिए दिक्कत यहीं है।

पर्यावरण विशेषज्ञ भी उन अस्थायी स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में चिंतित हैं जो लक्षण वाले मरीजों को रखते हैं। साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एन्वाइरमेंटल सिस्टम्स एनालिसिस की उप महानिदेशक लीना श्रीवास्तव ने कहा कि जानकारी के अनुसार इन केंद्रों में बुनियादी ढांचे और चिकित्साकर्मियों पर अधिक ध्यान केंद्रित रहता है। दूषित कचरे का सुरक्षित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता या इनके स्थान पर प्रणाली पर कम या कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है।

न केवल देखभाल करने वाले केंद्र, बल्कि रमशानघाट भी निशाने पर हैं। उदाहरण के लिए सीपीसीबी को दक्षिण दिल्ली के एक रमशानघाट में बिना किसी एहतियात के पीपीई इधर-उधर फेंके जाने की शिकायतें मिलीं। प्रदूषण नियंत्रण संस्था का मानना है कि जो पीपीई पूरी तरह से प्लास्टिक से बने होते हैं, उन्हें पर्यावरण संबंधी प्रभाव कम करने के लिए जलाने के बजाय कीटाणुरहित किया जा सकता है। अस्पताल जहां भी संभव हो चीजों के पुनः उपयोग

और इस्तेमाल के बाद फेंकने वाली चार्जों, मरीजों के कपड़ों आदि से बचने को प्रोत्साहन देते हुए आर्थिक प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि मुंबई में इस कचरे को प्रबंधित करने के लिए अस्पताल का औसत बिल कोविड से पहले के दिनों की तुलना में एक महीने में पांच गुना से ज्यादा बढ़कर तकरीबन चार से साढ़े चार लाख रुपये हो गया है।

मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल्स के ऑपरेशंस हेड अनूप लॉरेंस ने कहा कि कूड़ा प्रबंधन कंपनी - बीएमसी ने कोविड कचरे के प्रबंधन के लिए आउटसोर्सिंग की है। वह प्रति किलोग्राम कचरे के लिए अतिरिक्त 100 रुपये वसूल रही है। लॉरेंस ने कहा कि खान-पान के कंटेनर से लेकर बिस्तर के कपड़ों और मरीजों के बस्तों तक सभी को पहले हाइपो सोल्यूशन में भिगोया जाता है और फिर शोधन चक्र से गुजारा जाता है। चूँकि मरीज का दबाव बढ़ता गया है, इसलिए इन चीजों का पुनः प्रयोग करवाया जा रहा है, लेकिन देखभाल के साथ।

उपचार शुल्क की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए मुंबई के अस्पतालों ने नगरपालिका के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उन्हें इस लागत का कुछ हिस्सा मरीजों पर डालने की अनुमति दी जाए। जल्द ही ऐसी अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है जिसमें मरीज कोविड-19 के कचरे की लागत का कुछ हिस्सा वहन कर सकते हैं, जो प्रतिदिन 300 से 325 रुपये हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि सरकार ने चिकित्सा संबंधी कचरे का निपटारा करने में शहर के स्थानीय निकायों की भूमिका को मान्यता दी है, लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किए जा रहा है और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, तो ऐसे प्रयासों से सफलता सुनिश्चित होगी।

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Co. Ltd



सकल रिटन
प्रीमियम
₹ 31,244
करोड़

साल्वन्सी
अनुपात
2.11
टाइम्स

कर पश्चात
लाभ
₹ 1,418
करोड़

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल		समेकित	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	सकल रिटन प्रीमियम	31,244	28,017	31,475	28,225
2	कर पूर्व लाभ	1,639	645	1,659	677
3	कर पश्चात लाभ	1,418	580	1,436	605
4	साल्वन्सी अनुपात (टाइम्स)	2.11	2.13	2.11	2.13
5	निवल संपत्ति	15,726	15,762	16,330	16,338
6	प्रति शेयर अर्जन	8.60	3.52	8.75	3.67

नोट: ऊपर सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 33 और नियम 62 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। वार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.bseindia.com व www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.newindia.co.in) पर उपलब्ध है।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 जून, 2020

निदेशक मंडल की ओर से एवं उन्हीं के लिए

हस्ता./-

अतुल सहाय

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन/107542308

24x7 - Toll free number
1800-209-1415

www.newindia.co.in



NEW INDIA ASSURANCE

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

प्रधान कार्यालय : न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई-400 001, भारत

IRDAI REGN No. 190

CIN : L6600MH1919G01000526



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

www.bankofbaroda.in

नोटिस

24वीं वार्षिक सामान्य बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विडिओ माध्यम (ओएवीएम) द्वारा आयोजन

बैंक के शेयरधारक कृपया नोट करें कि अप्रैल एवं मई 2020 के महीने में जारी सामान्य परिषद क्रमांक 20/2020, 14/2020, 17/2020 तथा अन्य सभी लामू विधियों एवं कारपोरेट कंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिषदों के अनुपालन स्वरूप बैंक की 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 31 जुलाई 2020 को भारतीय समयानुसार प्रातः 10:00 बजे, बैंक की नोटिस में उल्लिखित कारोबार के संचालन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडिओ माध्यम (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त परिषदों के अनुसरण में, वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी सहभागी(यों) के साथ दर्ज हैं। डिमेंट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों, जिनके ई-मेल पते दर्ज नहीं हैं, से अनुरोध है कि अपने डिपोजिटरी सहभागी के माध्यम से संबंधित डिपोजिटरी के साथ ई-मेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करवाएं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि धारित शेयरों को डिमेंट करवा लें/ बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजिज प्रा. लि. (पूर्व में कार्बी फिनटेक प्रा. लि. के नाम से ज्ञात) को enward.ris@kintech.com पर अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर की जानकारी दें. 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रति बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और आर्टीए की वेबसाइट <http://evoting.karvy.com/> पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस में उल्लिखित कारोबार के संबंध में शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से दूर से मत डालने का अवसर मिलेगा। डिमेंट स्वरूप में, भौतिक रूप से शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने अपने ई-मेल पते दर्ज नहीं करवाए, द्वारा दूर से मत डालने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख शेयरधारकों को भेजी जाने वाली नोटिस में किया जाएगा। संबंधित विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। शेयरधारकों से अनुरोध है कि उक्त विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in को देखें।

शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि उपरोक्त परिषदों के अनुसरण में बैंक द्वारा शेयरधारकों को वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी।

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा
संजीव चड्ढा
(18/02/21)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 02.07.2020

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Only one private bid in 5th OALP auction round

FE BUREAU
New Delhi, July 1

THE UNION GOVERNMENT received bids from only one private firm and two state-owned companies for the eleven oilfields offered under the fifth round of Open Acreage Licensing Programme (OALP) auctions. State-run Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) was the only bidder for eight blocks while Oil India was the sole bidder for two

blocks. For the smallest oil field offered in this OALP round, the director general of hydrocarbons (DGH) has received bids from Invenire Petroleum and ONGC. This block in Gujarat is spread over only 18.4 sq km while the cumulative area of the oil fields offered in the auction is 19,789 sq km. This is the second round of OALP auctions after the Cabinet in February 2019, amended the revenue sharing model for hydrocarbon exploration and

capped the government's revenue share at 50%. No private player had participated in the previous OALP round where all the seven blocks offered were awarded to ONGC. As many as 94 blocks covering an area of 1.4 lakh sq km were awarded in the four OALP auctions completed so far. In the first three rounds Vedanta was awarded 51 blocks and two blocks went to the joint venture between BP Exploration and Reliance Industries.

Fuel demand stays muted in June

FE BUREAU
New Delhi, July 1

CONSUMPTION OF AUTO fuels in June did not improve much from the levels recorded in May, with diesel sales of 5.5 million tonne (MT) and petrol demand of 2 MT similar to the volumes used in the preceding month. On a year-on-year basis, diesel consumption was down 24.7% and petrol sales were lower by 16.7%. The sales had dropped over 60% annually in April.

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise - Mini Ratna)
CIN: L74899DL999G0101707
Regd. Office: 11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001, India
Tel: 011-23311263-64; Email: investors@irctc.com; Website: www.irctc.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 33 read with Regulation 47 and other applicable Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, 10th July, 2020** through video conferencing to consider, approve, adopt and take on record the Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2020 and to recommend final dividend, if any, for financial year 2019-20, subject to the approval of shareholders in AGM. The intimation contained in this notice is also available on the website of the Company viz., www.irctc.com and on the website of the stock exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited
Sd/-
Suman Kalra
Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 01st July, 2020

Span Divergent Limited
Formerly Span Diagnostics Limited
CIN: L14089GJ1999PLC0002719
Regd. Office: 8th Floor, Raghav Benita, Behind Ram Chank, Chod God Road, Surat - 390 007
Website: www.sgan.in

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on July 10, 2020 to consider & approve the audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2020 and along with other item of agenda. Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. www.span.in and on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

For Span Divergent Limited
Sd/-
Viral P. Desai
Managing Director

Place: Surat
Date: July 02, 2020

NOTICE is hereby given that the certificate for 100 Equity Share Folio Nos. 1001535, Cert. No- 53752, 53753, 91505, 91506, 337974, Dist. No- 4096854-78, 4096879-83, 4997279-88, 4997289-98, 13729936-85, of Procter and Gamble Health Ltd. standing in the name of Indu Upadhyaya joint with Anand Kumar Upadhyaya. Have been lost or mislaid and the undersigned have applied to the company to issue duplicate for the aforesaid shares. Any person who has a claim in respect of the said share should lodge such claim with the company at its registered office Godrej One, 8th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (E), Mumbai, Maharashtra, 400079 within one month from this date else the company will proceed to issue duplicate certificate. Name of share Holder:- Indu Upadhyaya joint with Anand Kumar upadhyaya. Date:- 29-06-2020

AXIS BANK Collection, 1st Floor, Balleshwar Avenue, S G Highway, Opp Rajpath Club, Bodakdev, Ahmedabad, Gujarat - 380 054.

POSSESSION NOTICE
APPENDIX -IV [Rule 8(1)]

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the AXIS BANK LTD, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated mentioned herein below label calling upon the Borrower/Co-Borrower/Mortgagor/Guarantor, mentioned herein below table to repay the amount mentioned hereunder in the notice as mentioned in the said notice together with further interest at the contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. incurred, to be incurred, within 60 days from the date of the said notice. Borrower/Co-Borrower/Mortgagor/Guarantor, mentioned herein below label having failed to repay the Bank's dues as mentioned in the notice issued to him under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, notice is hereby given to the Borrower and other mentioned herein above in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession (mentioned herein below label) of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules on following date: Borrower/Co-Borrower/Mortgagor/Guarantor mentioned herein below label in particular and the public, in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AXIS BANK LTD for an amount mentioned herein below label as mentioned in the said notice together with further interest at the contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. incurred / to be incurred. The Borrower's attention is invited to the provisions of sub Section (B) of section 13 of the SARFAESI act, 2002 in respect of time available, to redeem the secured assets.

S. No.	Name of Borrowers / Guarantors / Co-Borrower	Demand Notice Date & O/s. Amount Rs. (interest + Charges - Recovery)	DESCRIPTION OF THE PROPERTIES	Date & Type of Possession
1	(1) MANISH P BHATTI (2) PRITI M. BHATTI	31-01-2020 Rs. 1606102/- as on 29-01-2020	SCHEDULE OF IMMOVABLE PROPERTY ALL THE PIECE AND PARCEL OF FLAT NO. 8-103, ON FIRST FLOOR OF BUILDING NO. 8 IN RESIDENTIAL SCHEME KNOWN AS "SUNDERAM" - 2' HAVING BUILT AREA OF FLAT ADM 49-88 SQ. MTR. WITH COMMON PROPERTIES ON NA LAND BEARING REVENUE SURVEY NO. 18-3 PAKI LYING AND BEING AT MOULIE VILLAGE - MANDI, TALUKA - CITY REGISTRATION SUB-DISTRICT & REGISTRATION DISTRICT OF RAJKOT. THE SAID PROPERTY IS BOUNDED AS FOLLOW: SURROUNDING - NORTH: OTHER PROPERTY SOUTH: FLAT NO. 8-102, EAST: FLAT NO. 8-104, WEST: ROAD.	29-06-2020 SYMBOLIC
1	(1) PRADHUMAN SINH NATHAGHA CHAVDA (2) KRITIBA PRADHUMAN SINH CHAVDA	31-01-2020 Rs. 22,42,555/- as on 29-01-2020	SCHEDULE OF IMMOVABLE PROPERTY ALL THAT PIECE AND PARCEL OF THE LAND BEARING SUB PLOT NO. 3/E OF PLOT NO. 3 ON NA LAND, PLOT ADM 63-38 SQ. MTR. WITH CONSTRUCTION ON PLOT AND PROPORTIONATE ON NA LAND BEARING REVENUE SURVEY NO. 15/11 PAKI, TP NO. 223 OF TP SCHEME NO. 8 (RAKHA) LYING AND BEING AT MOULIE VILLAGE - RAJVA, REGISTRATION SUB-DISTRICT & REGISTRATION DISTRICT - RAJKOT. BOUNDARY OF THE AFORESAID PROPERTY SURROUNDINGS: NORTH: SUB PLOT NO. 3/E SOUTH: SUB PLOT NO. 3/D; EAST: 7.5 MTR. ROAD; WEST: OTHER PROPERTY	29-06-2020 SYMBOLIC

Please further note that as mentioned in sub-section 13 of Sec.13 of the aforesaid Act, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the assets stated under security referred to in this Notice without prior written consent of our Bank.
Date: 02-07-2020, Place: Gujarat
Authorised Officer, Axis Bank Ltd.

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Co. Ltd

Gross Written Premium
₹ 31,244 Crores

Solvency Ratio
2.11 Times

Profit After Tax
₹ 1,418 Crores

Extract of the Audited Financial Results for the Year ended 31st March 2020

(₹ IN CRORES)

Sl. No.	PARTICULARS	Standalone		Consolidated	
		Year Ended 31st Mar 2020 (Audited)	Year Ended 31st Mar 2019 (Audited)	Year Ended 31st Mar 2020 (Audited)	Year Ended 31st Mar 2019 (Audited)
1	GROSS WRITTEN PREMIUM	31,244	28,017	31,475	28,225
2	PROFIT BEFORE TAX	1,639	645	1,659	677
3	PROFIT AFTER TAX	1,418	580	1,436	605
4	SOLVENCY RATIO (TIMES)	2.11	2.13	2.11	2.13
5	NET WORTH	15,726	15,762	16,330	16,338
6	EARNING PER SHARE	8.60	3.52	8.75	3.67

Note: The above is an extract of the detailed format of Yearly Financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the Yearly Financial results are available on the websites of Stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company (www.newindia.co.in)

For and on behalf of the Board of Directors
sd/-
Atul Sahai
Chairman-Cum-Managing Director
DIN07542308

Place: Mumbai
Date: June 30, 2020

ALKYL

Alkyl Amines Chemicals Ltd.

Regd. Office: 401-407, Nirman Vyapar Kendra, Plot no. 10, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai 400703
Tel. No.: 022-67946618 | Fax: 022-67946666
E-mail ID: legal@alkylamines.com | Web: www.alkylamines.com | CIN: L99999MH1979PLC021796

NOTICE
(FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF ALKYL AMINES CHEMICALS LIMITED)

Pursuant to General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read together with Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated May 12, 2020, companies are allowed to conduct the Annual General Meeting (AGM) through video conferencing or other audio-visual means. Also, Notice of the AGM and Annual Report for the year ended March 31, 2020, shall be sent only through electronic mode, to those shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository.

With a view to send Notice of ensuing AGM, Annual Report and dividend/other communications in electronic form, shareholders of Alkyl Amines Chemicals Limited (Company) holding shares in dematerialized form, who have not registered / updated their email address, mobile and complete bank account details, are requested to register / update the same on or before Friday, July 17, 2020, with their Depository Participants.

Shareholders holding shares in physical form, for availing process enabled by the Company for the purpose of receiving Notice of AGM (including remote e-voting instructions) and Company's Annual Report electronically, can register / update their email address and Mobile No. on or before Friday, July 17, 2020 by clicking on the link https://sharexindia.com/Email_Register.html and for receiving the dividend electronically register / update their bank account details on or before Friday, July 17, 2020, by clicking on the link https://sharexindia.com/Bank_Register.html provided by the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Sharex Dynamic (India) Pvt. Ltd. C-101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. Tel : (022) 2851 5606, 28515644 & 2851 6338. Dividend warrants / demand drafts will be dispatched to the registered address of the shareholders who have not updated their bank accounts details, after normalization of postal services.

Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The shareholders are requested to register their PAN with the Company's Registrar and Transfer Agent (in case of shares held in physical mode) and with relevant depository participant (in case of shares held in demat mode).

A Resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by clicking on the link <https://sharexindia.com/submission-of-form-15g-15h.html> on or before Friday, 31st July, 2020. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by clicking on the link <https://sharexindia.com/submission-of-form-15g-15h.html>. The shareholders can submit the aforesaid declarations and documents on or before Friday, 31st July, 2020.

For ALKYL AMINES CHEMICALS LIMITED
Chintamani D. Thatte
General Manager (Secretarial) & Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Date: July 01, 2020

EXPRESS Careers

Shree Shankar Narayan Education Trust's
ROHIDAS PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES
Approved by AICTE, New Delhi | Recognised by DTE, Govt. of Maharashtra | Affiliated to University of Mumbai

Address: Mahavidyalaya Marg, Navghar, Bhayander East, Dist. Thane - 401105
Invites application for the following post for the Academic Year 2020 - 2021

SR No.	POST
1	Director
2	Professor (Marketing, Finance, Human Resource, I.T., Operations)
3	Associate Professor (Marketing, Finance, Human Resource, I.T., Operations)
4	Assistant Professor (Marketing, Finance, Human Resource, I.T., Operations)
5	Librarian

Qualification, Experience, Pay Scale & Reservations as per AICTE, and University of Mumbai norms.
Eligible Candidate should send their applications within 7 days from the date of publication of this advertisement on info@rpims.com
Candidates should submit their Email ID, Whatsapp and Mobile Number details in their application for further communication. Candidates will be informed through SMS or E-mail about the schedule of interview.

Secretary
S.N.E.Trust, Bhayander

EVEREADY

Power
GIVE ME RED

EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.
Registered Office: 1, Middleton Street, Kolkata-700 071
CIN: L31402WB1934PLC007993, Tel: 91-33-22883950, Fax: 91-33-24864673, Email: investorrelation@eveready.co.in, Website: www.evereadyindia.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE/CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020
(₹ in Lakhs, except per share data)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		3 months ended (31/03/2020)	Year ended (31/03/2020)	Corresponding 3 months ended in the previous year (31/03/2019)	3 months ended (31/03/2020)	Year ended (31/03/2020)	Corresponding 3 months ended in the previous year (31/03/2019)
		Audited*	Audited	Audited*	Audited*	Audited	Audited*
1	Total Income from Operations	23,636.61	1,25,765.56	32,555.22	23,622.34	1,26,772.11	34,537.15
2	Net Profit for the period before Tax and after exceptional items**	7,877.82	22,007.14	544.63	7,808.67	21,879.88	606.34
3	Net Profit for the period after tax and exceptional items**	6,373.43	17,956.58	404.75	6,306.55	17,828.82	454.46
4	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	6,369.87	18,043.73	545.11	6,306.39	17,961.83	583.93
5	Paid up Equity Share Capital (Face Value: ₹ 5/- per share)	3,634.36	3,634.36	3,634.36	3,634.36	3,634.36	3,634.36
6	Earnings Per Share (Basic & Diluted) of ₹ 5/- each (not annualised)						
	(a) Basic	8.77	24.70	0.56	8.68	24.53	0.63
	(b) Diluted	8.77	24.70	0.56	8.68	24.53	0.63

* The figures for the quarter ended March 31, 2020 and March 31, 2019 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published year-to-date figures up to the 3rd quarter of the current financial year and previous financial year.
** Exceptional items relate to - profit on sale of Hyderabad land in the 3 months ended 31/03/2020 and Voluntary Retirement Scheme for workmen in Chennai in the 3 months ended 31/03/2019.
Note: The above is an extract of the detailed format of the Statements of Standalone and Consolidated Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statements of Standalone and Consolidated Audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com respectively and on the Company's website at www.evereadyindia.com.

Kolkata
July 01, 2020

EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.
Amritanshu Khaitan
Managing Director

Mumbai

